



प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज-दिनांक जुलाई 25, 2022

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 106 वाहनों का चालान किया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 17 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके।

आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना पनियरा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त लक्षन पुत्र जंगली नि0 रामनगर कुड़रा टोला थाना पनियरा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 05 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 142/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- थाना निचलौल पुलिस द्वारा 600 शीशी नेपाली शराब व मोटरसाईकिल बरामद कर अज्ञात के विरुद्ध मु0अ0सं0 355/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में व 600 शीशी नेपाली शराब व एक मोटरसाईकिल बरामद कर अज्ञात के विरुद्ध मु0अ0सं0 356/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में व भोला पुत्र बनहू नि0 सवया थाना कोठीभार जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना निचलौल पर मु0अ0सं0 358/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में व अभियुक्त घनश्याम भारती पुत्र विशुन नि0 बजही थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 359/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना घुघली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्ता बालकेशी पत्नी रामकेवल नि0 पिपरिया करजहां थाना घुघली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 17 शीशी देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 180/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना पनियरा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त पल्लू पुत्र रतन नि0 बरगदवां थाना पनियरा के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 143/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में व अभियुक्त सोमई पुत्र झिन्नू नि0 पनियरा खास थाना पनियरा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 144/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में व अभियुक्त खूबलाल पुत्र पूर्णवासी नि0 बडवापर थाना पनियरा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 145/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

कस्टम अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना बरगदवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त जगदीश साहनी पुत्र हरेराम साहनी नि0 पिपरा थाना बरगदवां जनपद महाराजगंज के कब्जे से 21 बोरी यूरिया खाद बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 निल/22 धारा 10 कस्टम अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

एनडीपीएस एक्ट में की गयी कार्यवाही-

थाना कोठीभार पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त राहुल जायसवाल पुत्र सुरेन्द्र नि0 वार्ड नं0 15 कस्बा सिसवां थाना कोठीभार 2. कृष्णगोपाल सिंह पुत्र विनोद सिंह नि0 बेलवा चौधरी थाना कोठीभार 3.रोहित भट्ट पुत्र विनोद कुमार नि0 धनेवा धनेई थाना कोतवाली के विरुद्ध थाना कोठीभार पर मु0अ0सं0 152/22 धारा 8/21/22 एनडीपीएस एक्ट में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- 29 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया ।

जनपद में 24/25.07.2022 को विभिन्न अपराधों में कुल- 27 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी ।